



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2018/अग्रहायण 22, 1940
No. 889]	NEW DELHI THURSDAY, DECEMBER 13, 2018/AGRAHAYANA 22, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1201(अ).**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में **सिविल इंजीनियर, विद्युत इंजीनियर, वरिष्ठ प्रबंधक (इंजीनियरी सेवाएं) और उप निदेशक (इंजीनियरी सेवाएं)** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, **इंजीनियरी विभाग** (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना** - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि**- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. प्रारंभिक गठन**- ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में **सिविल इंजीनियर, विद्युत इंजीनियर, वरिष्ठ प्रबंधक (इंजीनियरी) और उप निदेशक (इंजीनियरी सेवाएं)** का पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों की अनुसूची में उल्लिखित तत्स्थानी पदों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और

उक्त पदों पर इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर उनके द्वारा की गई सेवाएं अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि ज्येष्ठता और पात्रता का विनिश्चय करने के लिए गणना में ली जाएंगी।

#### 6. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**7. शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा चित्रित कर सकेगी।

**8. व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. सिविल इंजीनियर</b>	1* (2018) * कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400/-रु) में स्तर 7	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में बैचलर ऑफ इंजीनियरी / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री।
<b>टिप्पण -1 :</b> (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	<b>टिप्पण-1:-</b> अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
<b>टिप्पण -2 :</b> आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

<b>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</b>
(10)
<p><b>सीधी भर्ती द्वारा :-</b></p> <p><b>टिप्पण -1 :</b> पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -</p> <p>(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हो ; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।</p> <p><b>टिप्पण -2 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की समाप्ति तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आचार्य, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र - अध्यक्ष</li> <li>2. उप सचिव, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र – सदस्य</li> <li>3. सहायक आचार्य, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र- सदस्य</li> </ol>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. विद्युत इंजीनियर	<p>1* (2018)</p> <p>* कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400/- रु) में स्तर 7	लागू नहीं होता

(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक:
<b>टिप्पण -1 :</b> (सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में बैचलर ऑफ इंजीनियरी / बैचलर ऑफ टैक्नोलॉजी।

के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	<b>टिप्पण-1:-</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
<b>टिप्पण -2 :</b> आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<b>सीधी भर्ती द्वारा :-</b> <b>टिप्पण -1 :</b> पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी - (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हो ; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो। <b>टिप्पण -2 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की समाप्ति तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b> 1. आचार्य, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र - अध्यक्ष 2. उप सचिव, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र – सदस्य 3. सहायक आचार्य, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>3. वरिष्ठ प्रबंधक (इंजीनियरी सेवाएं)</b>	1* (2018) * कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	<b>साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख'</b> , अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700/- रु) में स्तर 11	चयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा ना होने पर एक अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति: विद्युत इंजीनियर या सिविल इंजीनियर ग्रेड वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में (44900-142400 रुपये) में सात वर्ष की नियमित सेवा के साथ जिसने विभाग द्वारा निर्धारित 2 या 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p><b>टिप्पण :</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी या पद में निर्धारित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी: -</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9/10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव: -</p> <p>आवश्यक: -</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री।</p> <p>(में) बिजली या सिविल कार्य का पांच साल का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p><b>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>(I) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष;</p> <p>(II) आचार्य, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र - सदस्य;</p> <p>(III) उप सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग - सदस्य।</p> <p><b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>(I) निदेशक, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र;</p> <p>(II) आचार्य, भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र-सदस्य;</p> <p>(III) उप सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग - सदस्य।</p>	<p>पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>4. उप निदेशक (इंजीनियरी सेवाएं)</b>	1* (2018) * कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	<b>साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क',</b> अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200/-रु) में स्तर 12	लागू नहीं होता

(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति द्वारा)

(11)	(12)	(13)
<p><b>संयुक्त पद्धति:</b> <b>(प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) / प्रोन्नति)</b></p> <p>केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी: -</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों</p> <p>(ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में स्तर - 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान किए गए श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक आहर्ताएं और अनुभव रखता हो: -</p> <p><b>आवश्यक: -</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री।</p> <p>(ii) इलेक्ट्रिकल या सिविल कार्य का दस साल का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रु.) में स्तर 11 में वरिष्ठ प्रबंधक (इंजीनियरी सेवाएं) श्रेणी में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो तथा प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक आहर्ता और अनुभव रखने वालों पर बाह्य लोगों के साथ विचार किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतया चार वर्ष रहेगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. एस -11014 / 32/2018-एचआर]

विनोद कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(Department of Health Research)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th December, 2018

**G.S.R. 1201(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Civil Engineer, Electrical Engineer, Senior Manager (Engineering Services) and Deputy Director (Engineering Services) in the Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Bhopal Memorial Hospital and Research Centre, Engineering Department, (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.** - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and level in pay matrix or pay scale.**- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Initial constitution.** - The persons holding the posts of **Civil Engineer, Electrical Engineer, Senior Manager (Engineering Services) and Deputy Director (Engineering Services)** in the Bhopal Memorial Hospital and Research Centre on regular basis on the date of the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules to the corresponding post mentioned in the Schedule and the services rendered by them in the said post on regular basis before the commencement of said rules shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority and eligibility for promotion to the next higher grade.

**6. Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**7. Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**8. Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other

special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Civil Engineer	1* (2018)  * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years  Note-1.- Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  Note-2.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology Degree in Civil Engineering from a recognized University.  Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing,	Not applicable.	Two years	By direct recruitment  Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.



in the case of candidates otherwise well qualified.			<p>(a) holding analogous post on regular basis; and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
---	--	--	--

<b>In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made</b>
(11)
Not applicable.

<b>If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
(12)	(13)
<p>Group-B Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(I) Professor, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre - Chairman;</p> <p>(II) Deputy Secretary, Department of Health Research - Member;</p> <p>(III) Assistant Professor, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre- Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Electrical Engineer	1* (2018) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Not applicable.	<p>Not exceeding 30 years</p> <p>Note-1.- Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note-2.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba</p>

					district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
(7)		(8)	(9)	(10)	
<p>Essential : Bachlor of Engineering/ Bachlor of Technology in Electrical Engineering/ Electrical and Electronics Engineering from a recognized University.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p>		Not applicable.	Two years	<p>By direct recruitment</p> <p>Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis; and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
<p>Group-B Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>(I) Professor, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre - Chairman;</p> <p>(II) Deputy Secretary, Department of Health Research - Member;</p> <p>(III) Assistant Professor, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre— Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Manager (Engineering Services)	<p>1* (2018)</p> <p>* Subject to variation dependent on</p>	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.

	workload				
--	----------	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Electrical Engineer or Civil Engineer with seven years regular service in the grade in level- 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) having successfully completed 2 or 4 weeks training as prescribed by the Department.</p> <p>Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.</p> <p><b>Deputation (including short-term contract):</b> Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-9/10 in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience as under:-</p> <p>Essential:-</p> <p>(i) Bachelors degree in civil or electrical engineering or electrical and electronics from a recognised University. (ii) Five years of experience of electrical or civil work.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily</p>	<p>Group-A Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <p>(I) Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairman;</p> <p>(II) Professor, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre – Member;</p> <p>(III) Deputy Secretary, Department of Health Research - Member.</p> <p>Group-A Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(I) Director, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre - Chairman;</p> <p>(II) Professor, Bhopal Memorial Hospital and Research Centre – Member;</p> <p>(III) Deputy Secretary, Department of Health Research - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary.</p>

not to exceed four years.		
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Deputy Director (Engineering Services)	1* (2018) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By composite method (Deputation (including short-term contract) / Promotion)

(11)
<p><b>Composite Method: (Deputation (ISTC)/ Promotion)</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or recognised research institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre or Department; or</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience as under:</p> <p><b>Essential:-</b></p> <p>(i) Bachelors degree in civil or electrical engineering or electrical and electronics engineering from a recognized University.</p> <p>(ii) Ten years of experience of electrical or civil work.</p> <p>Note 1: Senior Manager (Engineering Services) in level 11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years of regular service in the grade and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationist shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commissions necessary.

[F. No. S.11014/32/2018-HR]  
VINOD KUMAR, Under Secy.